



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 747) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2013

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना
10 जुलाई 2013

सं0 648—गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली अंचल के ग्राम माधोपुर में अवस्थित श्री राम जानकी वैष्णव बैरागी मठ (माधोपुर मठ) के सुचारु प्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1530, दिनांक 02.01.2008 द्वारा गठित न्यास समिति का 05 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके कार्यकाल विस्तार संबंधी अधिसूचना पर्षदीय ज्ञापांक 625, दिनांक 05.07.2013 द्वारा निर्गत किया गया है जिसमें कार्यालय के भूलवश "इसका कार्यकाल पिछली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि (29.02.2008) से पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है" अंकित हो गया है। अंचल पदाधिकारी, बरौली द्वारा प्रेषित पत्रांक 516, दिनांक 08.07.2013 में इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक संशोधन कर संसूचित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पर्षदीय ज्ञापांक 625, दिनांक 05.07.2013 द्वारा निर्गत अधिसूचना के अन्तिम कंडिका को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :-

"चूंकि इस न्यास समिति ने न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अच्छा कार्य किया है, अतः इसका कार्यकाल दिनांक 28.02.2013 से पुनः पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है। कार्यकाल समाप्ति एवं अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के बीच जो अन्तराल है, उसे भी नियमित किया जाता है और उक्त अवधि के सभी निर्णयों को मान्य किया जाता है।"

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 747-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>